

**भारत कोकिंग कोल लिमिटेड**  
एक मिनीरतन कंपनी  
(कोल इंडिया लिमिटेड का एक अंग )  
**जनसम्पर्क विभाग**  
कोयला भवन, कोयला नगर, धनबाद – 826005



**Bharat Coking Coal Limited**  
A Miniratn Company  
(A subsidiary of Coal India Ltd)  
**Public Relation Department**  
Koyla Bhawan, Koyla Nagar,  
Dhanbad, Jharkhand-826005

दिनांक: 18 नवंबर, 2015

### प्रेस विज्ञप्ति

### बीसीसीएल को विश्वमुक्ति राष्ट्रीय राजभाषा सम्मान -2015 प्राप्त

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, धनबाद को राजभाषा के क्षेत्र में अभिनव और नवीन कार्य करने तथा बेहतर राजभाषा कार्यान्वयन के लिए ओड़ीशा के विश्वमुक्ति संस्थान द्वारा दिनांक 14-16 नवंबर, 2015 के दौरान विशाखापटनम में आयोजित चौथे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन एवं बहुभाषी कवि सम्मेलन में “विश्वमुक्ति राष्ट्रीय राजभाषा सम्मान-2015” से सम्मानित किया गया है। बीसीसीएल की ओर से यह सम्मान श्री कुमार राजीव रंजन, क्षेत्रीय कार्मिक प्रबंधक, मुनीडीह क्षेत्र और श्री एम के सिंह, वरीय प्रबंधक (कार्मिक), औद्योगिक संबंध विभाग द्वारा ग्रहण किया गया। वर्ष 2015 में यह पुरस्कार राष्ट्रीय स्तर पर 5 पब्लिक सेक्टर कंपनियों (भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, विशाखापटनम पोर्ट ट्रस्ट, नेवेली लिग्नाईट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड और एन एम डी सी लिमिटेड) को प्रदान किया गया है। यह पुरस्कार भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के बोर्ड मेम्बर (एचआर) श्री अनुज अग्रवाल द्वारा प्रदान किया गया।

इस अवसर पर आयोजित बहुभाषी कवि सम्मेलन में श्री कुमार राजीव रंजन द्वारा हिन्दी और कन्नड में अपनी कवितायें प्रस्तुत की गईं।

उक्त पुरस्कार को राजभाषा विभाग के प्रतिनिधियों और उपर्युक्त दोनों प्रतिभागियों द्वारा आज दिनांक 18 नवंबर, 2015 को बीसीसीएल के निदेशक (कार्मिक) श्री बी के पण्डा को उनके कक्ष में सौंपा गया। निदेशक (कार्मिक) महोदय ने राजभाषा विभाग को बधाई देते हुए राजभाषा के क्षेत्र में और अधिक बढ़ चढ़कर कार्य करने का आह्वान किया। मौके पर महाप्रबंधक (कार्मिक व औद्योगिक संबंध) श्री सोलोमन कुदादा, चिकित्सा सेवा प्रमुख (सीएचडी) डॉ. जी एस पाण्डेय, उप महाप्रबंधक (कल्याण) श्री एस सूद, उप महाप्रबंधक (प्रशासन) श्री के के सिंह, मुख्य प्रबंधक (वित्त) श्री बी पी भगत, श्री दीपक कुमार सिन्हा, उप प्रबन्धक (सचिवीय/राजभाषा), श्री दिलीप कुमार सिंह, सहायक प्रबन्धक (राजभाषा), श्री उदयवीर सिंह, सहायक प्रबन्धक (राजभाषा), श्री श्याम नारायण सिंह, वरीय अनुवादक, श्री महेंद्र कुमार सिंह, वरीय निजी सहायक, श्रीमती ईशानी चौधरी, वरीय निजी सहायक आदि उपस्थित थे।

उपमहाप्रबंधक (जनसंपर्क)

## भारत कोकिंग कोल लिमिटेड

एक मिनीरत्न कंपनी  
(कोल इंडिया लिमिटेड का एक अंग )

जनसम्पर्क विभाग

कोयला भवन, कोयला नगर, धनबाद – 826005



## Bharat Coking Coal Limited

A Miniratn Company  
(A subsidiary of Coal India Ltd)

**Public Relation Department**

Koyla Bhawan, Koyla Nagar,  
Dhanbad, Jharkhand-826005

